



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र, 1941 (श०)

संख्या- 698 राँची, शुक्रवार,

30 अगस्त, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

19 अगस्त, 2019

संख्या-1/पी०-101/2013 का.-6553 -- प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री विमल, भा.प्र.से. (झा:2004) (अतिरिक्त प्रभार- प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के पद पर अपने ही वेतनमान में नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी०-101/2013 का.-6554 -- उपायुक्त, बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री कृपा नन्द झा, भा.प्र.से. (झा:2005) (अतिरिक्त प्रभार-क्षेत्रीय निदेशक, जियाडा बोकारो प्रक्षेत्र) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, उद्योग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री झा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम, राँची (JIIDCO) तथा अभियान निदेशक, झारखण्ड राज्य स्किल मिशन सोसायटी के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी०-101/2013 का.-6555 -- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री विनोद कुमार, भा.प्र.से. (झा:2005) (अतिरिक्त प्रभार- विशेष सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची के पद पर अपने ही वेतनमान में नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी०-101/2013 का.-6556 -- विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री अरविन्द कुमार, भा.प्र.से. (झा:2005) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पद पर अपने ही वेतनमान में नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी०-101/2013 का.-6557 -- उपायुक्त, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित श्री जटा शंकर चौधरी, भा.प्र.से. (झा:2005) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी०-101/2013 का.-6558 -- नगर आयुक्त, गिरिडीह नगर निगम के पद पर पदस्थापित श्री गणेश कुमार, भा.प्र.से. (झा:2006) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जामताड़ा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या-1/पी०-101/2013 का.-6559 -- उपायुक्त, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित श्री राजेश कुमार पाठक, भा.प्र.से. (झा:2006) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री पाठक अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक, बागवानी के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी०-101/2013 का.-6560 -- विशेष सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के पद पर पदस्थापित श्री अनिल कुमार राय, भा.प्र.से. (झा:2006) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, नगर निगम, गिरिडीह के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी०-101/2013 का.-6561 -- निदेशक, उद्योग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री मुकेश कुमार, भा.प्र.से. (झा:2009) (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, JIIDCO तथा अभियान निदेशक, झारखण्ड राज्य स्किल मिशन सोसायटी) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक बोकारो जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

2. श्री कुमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ क्षेत्रीय निदेशक, जियाडा बोकारो प्रक्षेत्र के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी०-101/2013 का.-6562 -- उपायुक्त, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री राहुल कुमार सिन्हा, भा.प्र.से. (झा:2011) (अतिरिक्त प्रभार-क्षेत्रीय निदेशक, झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, संचाल परगना प्रक्षेत्र, शिविर कार्यालय, देवघर) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक गिरिडीह जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या-1/पी०-101/2013 का.-6563 -- संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री आदित्य कुमार आनन्द, भा.प्र.से. (झा:2013) (अतिरिक्त प्रभार-निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकार, झारखण्ड) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी०-101/2013 का.-6564 -- उप विकास आयुक्त, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित श्रीमती नैन्सी सहाय, भा.प्र.से. (झा:2014) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक देवघर जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

2. श्रीमती सहाय अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ क्षेत्रीय निदेशक, झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, संथाल परगना प्रक्षेत्र, शिविर कार्यालय, देवघर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

संख्या-1/पी०-101/2013 का.-6565 -- उप विकास आयुक्त, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री सुशान्त गौरव, भा.प्र.से. (झा:2014) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी०-101/2013 का.-6566 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, राँची सदर के पद पर पदस्थापित श्रीमती गरिमा सिंह, भा.प्र.से. (झा:2016) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी०-101/2013 का.-6567 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री लोकेश मिश्र, भा.प्र.से. (झा:2016) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, राँची सदर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें राँची सदर अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।
